## प्रभु के लिए पवत्रिता

# ईश्वर का उपचारक वचन

### रेव. जॉर्ज लियोन पाइक सीनियर द्वारा.

यह संदेश निःशुल्क वितरण के लिए प्रकाशित किया गया है। अधिक प्रतियों के लिए, यदि संभव हो तो, नीचे दिए गए पते पर अंग्रेजी में लिखें, यह बताते हुए कि आप कितनी प्रतियों का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं।

#### **Published By**

Grace Temple
1235 Locklin Rd
Monroe, GA 30655 USA
Web: www.GraceTempleOnline.org
Email: info@GraceTempleOnline.org
Archive: www.Transology.info

HIN9908T • Hindi • God's Healing Word

http://www.transology.info/tracts/hin9908t.htm

#### ईश्वर का उपचारक वचन

उन सभी के लिए जिन्होंने कभी ईश्वर के भरपुर जीवन का आनंद नहीं लिया।

जानने योग्य बात यह है कि ईश्वर जीवन की आतमा है। उसमें मृत्यु नहीं है। शैतान मृत्यु की आतमा है, और उसमें जीवन नहीं है। ईश्वर ने क्षणिक जीवन दिया है, और इस संसार में जन्म लेने वाले सभी लोग इसके भागीदार हैं। हम जीवन की अनमोल साँस लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ओह, उन लोगों के लिए जीवन कितना सुंदर हो सकता है जिनके मन में संदेह और निराशा के परस्पर विरोधी विचार नहीं हैं! सड़कों पर टहलना, या किसी ग्रामीण सड़क पर साइकिल चलाना, सुंदर घास के मैदानों और फूलों को देखना कितना अच्छा है, सभी जीवित और अपनी सुगंध और ईश्वर के हाथों से प्राप्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के साथ जीवंत; आपके शरीर में स्वास्थ्य का प्रवाह हो, चिंता के कोई परस्पर विरोधी विचार न हों, आपके शरीर में बीमारी की कोई भावना न हो; आपके विचार, आपकी आतमा में दौड़ते हुए, अपार आनंद लेकर आएँ।

सचमुच, लेखक ने ठीक ही कहा है कि हम उद्घार के कुओं से आनंद के साथ पानी निकॉलते हैं; धन्यवाद के साथ उसके द्वारों में और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। बाइबल हमें बताती है कि जिसका मन प्रसन्न रहता है, उसके लिए नित्य भोज होता है, और प्रसन्न मन औषि के समान भलाई करता है, परन्तु टूटा मन हड्डियों को सुखा देता है। लेखक हमें बताता है कि दुःख मृत्यु का कारण बनता है। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि बाइबल क्यों सिखाती है कि परमेश्वर की सेवा करना पवित्र आत्मा में आनंद, शांति और धार्मिकता है। यही कारण है कि उसकी लिखित प्रतिज्ञाओं में, उसके अटल, कभी न मिटने वाले वचन में, जो अनादि काल से अनन्त तक है, जो कभी नहीं बदलता, विश्वास अनन्त जीवन लाता है।

ये प्रेरणा और जीवन के वचन हैं, आशा और कोमल क्षमा के वादे हैं, जो कोई भी चाहे, उसे आने दें। ये सभी के लिए चंगाई के वादे हैं। तुम्हारे विश्वास के अनुसार, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, किसी व्यक्ति का आदर न करते हुए, बल्कि सभी मनुष्यों को परमेश्वर की रचना मानते हुए। हम अपना भाग्य स्वयं तय करते हैं।

एक ट्यक्ति एक स्वस्थ जीवन का आनंद<sup>3</sup>कैसे ले सकता है? केवल एक ही रास्ता है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हम भय के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि यह एक दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं में अविश्वास के माध्यम से हमारी आत्मा में प्रवेश करती है, जिसने हमें बनाया और हमें जीवन तक स्रक्षित रखा है।

यीशु ने कहा, "तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न ही भयभीत हो।" यह हम पर निर्भर है कि हम जीवँन के नकारात्मक पक्ष का उपयोग परमेश्वर के रचनात्मक वचनों में सकारात्मक विश्वास विकसित करने के लिए करें। जिस प्रकार हमारे मन में हमारे विचारों से निर्मित विश्वास होता है, उसी प्रकार मसीह के मन में भी वह विश्वास है जो कभी संतों को दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मसीह का मन दिया था। हमें यीशु मसीह के विश्वास के लिए संघर्ष करना चाहिए। पौलुस ने कहा, "हमारे पास मसीह का मन है," लेकिन हमें इसे स्वतंत्रता देनी चाहिए। हमारी आत्मा या हृदय में स्थित इस मन के माध्यम से, परमेश्वर अपनी शक्ति में जो कुछ भी है, जैसे उद्धार, चंगाई, आदि, वह सब आपके शरीर में छोड़ देता है। परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है, इसलिए हमारी चंगाई भी हमारे भीतर है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा उद्धार है।

पौलुस ने कहा, "हम मसीह की देह हैं।" बहुत से लोग सो जाते हैं क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाते। यीशु क्रूस पर मृत्यु के समय आपका बीमार, पीड़ाग्रस्त शरीर बन गए तािक आप उनका शरीर बन सकें जो सभी पापों और रोगों से पूरी तरह मुक्त हो। आप ऐसा मसीह की मृत्यु में विश्वास करके करते हैं, यह समझते हुए कि उन्होंने मृत्यु में आपका स्थान लिया तािक आप जीवन में उनका शरीर बन सकें। जब आप विश्वास के द्वारा यह मान लेते हैं कि उन्होंने आपके साथ स्थान बदल लिया है, तो आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आपका शरीर, जो मूसा को दिए गए परमेश्वर के न्याय की व्यवस्था के श्राप के अधीन था, क्रूस पर कीलों से ठोंका गया था, और चूँकि अब आप मसीह के शरीर हैं, इसलिए आप यीशु में अपने विश्वास के दवारा श्राप से मुक्त हैं।

परमेश्वर की वाचा और उसकी सभी प्रतिज्ञाएँ प्रभु यीशु के लिए हैं। हम उन्हें यीशु में विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह विश्वास करने से कि हम मसीह का शरीर हैं, प्रतिज्ञाएँ हमारी हो जाती हैं। याद रखें, हमारा विश्वास बौद्धिक चिंतन है जिसे हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप बनाते हैं। परमेश्वर का वचन मसीह का मन है। विश्वास वचन के अवण से आता है। मसीह का विश्वास हमारे हृदय या आत्मा में एक गहरा विश्वास है। यह मानना कि हम बौद्धिक रूप से बचाए गए हैं या चंगे हुए हैं, इसका अर्थ केवल यह है कि हम धोखा खा गए हैं और खो गए हैं। यह हृदय या आत्मा का विश्वास होना चाहिए। हृदय से मनुष्य धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, और जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वह होता है। यीशु ने कहा, "यदि तुम अपने हृदय में विश्वास कर सको और संदेह न करो, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे, वह तुम्हें मिल सकता है।" हृदय तब तक ईमानदारी से विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वह आपकी सच्ची भक्ति और परमेश्वर के प्रति आपके सच्चे प्रयासों से आश्वस्त न हो। इसीलिए कर्मों की प्रेरणा के बिना विश्वास मृत है। कर्म आप पर परमेश्वर की कृपा में आपके विश्वास को पुनर्जीवित करते हैं।

जब आपके शरीर की पाँचों इंद्रियाँ (दृष्टि, स्वाद, श्रवण, गंध और स्पर्श) उपवास या अधीनता के कारण मृत हो जाती हैं, तो आपके भीतर मसीह का विश्वास आध्यात्मिक उत्पीड़न से मुक्त हो जाता है। यदि शैतान को आपसे निकाल दिया गया है, तो उसके पास आपके विश्वास में बाधा डालने के लिए आपकी पाँचों इंद्रियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब जब हम यह समझ गए हैं, तो आइए हम उनके वचनों को सुनकर अपने विश्वास को मज़बूत करें।

मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। याद रखो, चाहे शारीरिक, आर्थिक या आध्यात्मिक रूप से, वह सब कुछ पूरा करेगा। मैं वह परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे सभी अधर्मों को क्षमा करता हूँ, और तुम्हारे सभी रोगों को ठीक करता हूँ। ध्यान दो, उसने कहा सब! मैं तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूँगा, या उसे तुम्हारी आत्मा से निकाल दुँगा।

परमेश्वर जीवन है, और जीवन के सभी गुण, जैसे चंगाई, उद्धार, आनंद, शांति और समृद्धि, जीवन की आत्मा और मसीह के शरीर से संबंधित हैं, जिसका शरीर तुम हो। यीशु ने कहा, "मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ।" ऐसा सोचना मसीह का मन और विश्वास है, जिसके माध्यम से सद्गुण मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं। क्या वह मसीह के साथ, सब कुछ मुक्त रूप से नहीं देगा? पौलूस ने पूछा।

शैतान की आत्मा मृत्यु हैं: परमेश्वर का शत्रु। शास्त्र हमें बताते हैं कि मृत्यु मनुष्य के द्वारा आई। मृत्यु के गुण हैं भय, शोक, पीड़ा, चिंता, दिरद्रता और बीमारी। ये सभी परमेश्वर के शत्रु हैं। मसीह इन सभी चीज़ों के विरुद्ध आया: महामारी, तपेदिक, ज्वर, सूजन, जलन, फोड़ा, फोड़ा, पपड़ी, खुजली, अंधापन, घुटनों और पैरों में दर्द, और हर वह बीमारी जो व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखी है। तुम इनसे मुक्त हो। ये सभी व्यवस्था के अभिशाप के अधीन थे। तुम अनुग्रह के अधीन हो। मसीह हमारे लिए अभिशाप बना। उसने हमें कूस पर अपने शरीर के दवारा अभिशाप से मुक्त किया।

दुनिया भर में ज्ञात हर बीमारी और रोग पाप के कारण थे। वह पाप परमेश्वर के वचन में अविश्वास था। हव्वा ने यह पाप किया। जो विश्वास से नहीं है वह पाप है। आदम ने अविश्वास के द्वारा सभी मनुष्यों को श्राप के अधीन कर दिया। मसीह ने विश्वास के द्वारा सभी मनुष्यों को श्राप से मुक्त किया। आदम में सभी मरते हैं: मसीह में सभी जिलाए जाते हैं।

उसने अपना वचन (यीशु) भेजा और उन्हें चंगा किया। उसके वचन में विश्वास वचन को देहधारी बनाता है। हम वचन बन जाते हैं, एक पत्र जो सभी मनुष्यों को ज्ञात और पढ़ा जाता है, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। हम मसीह के शरीर के रूप में वचन के साथ एक हैं। परमेश्वर में कोई रोग नहीं है। उसके मार खाने से तुम चंगे हए।

तुममें मसीह का स्वभाव है। उन्होंने अपनी गवाही के वचनों और मेमने के लहू, कलवारों के कार्य के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की, वचन और कर्म से, जो उसने उनके लिए किया है, उसे स्वीकार किया। अपनी समझ का सहारा न लो, पूरे मन से प्रभ (वचन) पर भरोसा रखो।

हमें हर विचार को मसीह की कैद में लाना चाहिए, कल्पनाओं, भय और शंकाओं को त्याग देना चाहिए, इस प्रकार उस सांसारिक मन को नष्ट कर देना चाहिए जो परमेश्वर से शत्रुता रखता है। परमेश्वर अपने मुख से निकली बात को नहीं

बदलेगा। वह अपने वचन को पूरा करने के लिए उस पर नज़र रखेगा।

यदि उसके मार खाने से तुमें चंगे हुए हो, और वह किसी का पक्ष नहीं करता, और हमें उन चीज़ों को, जो हैं ही नहीं, ऐसा कहना चाहिए (देखकर जीने से नहीं: धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा), तो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पूर्ण कर दिया है। परमेश्वर अपने वचन में हमें बताते हैं, "मैं चाहता हूँ कि तुम सब से बढ़कर, समृद्ध और स्वस्थ रहो, जैसे तुम्हारी आत्मा

समृद्ध है।" तुम्हारा स्वास्थ्य और समृद्धि तुम्हारी आत्मा की समृद्धि से नियंत्रित होती है। प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। तुम्हें यहाँ जो धन है, उसे अनन्त धन के बदले परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए।

विश्वास करो (याद रखो, हृदय का दृढ़ विश्वास) कि तुम्हारी बीमारी सचमुच और सचमुच दूर हो गई है। यह कभी भी एक बार भी विफल नहीं हो सकती। तुम विश्वास कर सकते हो और बीमार रह सकते हो और शापित हो सकते हो, लेकिन अगर तुम सचमुच विश्वास करते हो, तो यह तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करेगा और उसे धार्मिकता और प्रमाण के कार्यों के लिए बाध्य करेगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और न ही त्यागता है। परमेश्वर कभी विफल नहीं होता। हम अविश्वास के कारण उसे छोड़ देते हैं। यीशु ने कहा, "विश्वास से माँग, बिना किसी हिचकिचाहट के।" यहन्ना ने कहा, "हमारा उस पर भरोसा यही है: जो हम उसके नाम से माँगते हैं, वह हमें मिलता है। अगर हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा है।" पौलुस ने कहा, "मैं हमेशा अपने विवेक को मनुष्य और परमेश्वर के प्रति अपराध-रहित रखने का प्रयास करता हूँ।" पवित्रशास्त्र कहता है, "जो कोई माँगता है, उसे मिलता है।" यीशु ने कहा, "जो कुछ तुम मेरे नाम से माँगोगे, मैं उसे करूँगा।" यीशु ने स्वर्ग में पिता की महिमा करने के लिए कहा। माँग, ताकि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। उसने तुम्हारी बीमारी और दुःख को अपने शरीर में कूस पर सहा, और उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु ने कहा, "पूरा हुआ।" अगर उसने तुम्हारे लिए उन्हें अपने शरीर में सहा, तो शैतान के झूठ के कारण उन्हें फिर से क्यों सहना?

याद रखें, विश्वासँ आपके विचारों और इच्छा को उसके प्रति समर्पित करेंने का एक रूप है। उसके वचन पर विश्वास करना आपके अपने विचारों और थकी हुई, उदास भावनाओं का खंडन है। उसके वादों के बारे में सकारात्मक विचार सोचने से आपके मन से हार के नकारात्मक विचार मिट जाएँगे, और आपके जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। जब आप विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो वह काम करना बंद कर देता है। हमेशा अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। इसलिए अपने मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाएँ। अपने शुद्ध मन, मसीह के मन को जागृत करें, और प्रभु की भली और स्वीकार्य इच्छा को सिद्ध करें। वह एक महायाजक हैं, जो हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं से प्रभावित होकर, आपके हृदय में आपके लिए मध्यस्थता करते हैं; आपके स्वीकारोक्ति के महायाजक।

मनुष्य हृदय से धार्मिकता के लिए विश्वास करता है। मुँह से मुक्ति के लिए स्वीकारोक्ति की जाती है। यीशु मसीह के नाम पर, अपनी सभी दुर्बलताओं, बीमारियों और पराजयों से स्वीकार करें, विश्वास करें, ग्रहण करें और पूर्ण बने। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, यही मेरी प्रार्थना है।

रेव. जॉर्ज लियोन पाइक सीनियर दवारा

यीश् मसीह के अनन्त साम्राज्य के प्रच्र जीवन, इंक. के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष।